

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26062024-254940  
SG-DL-E-26062024-254940असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
No. 160]	DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946	[N. C. T. D. No. 77

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जून, 2024

फा0सं0 1(977)/एच आर-पैरा/स्वा0एवं परि0कल्या0/2022/1412-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की जीएसआर सं0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सरकार की दिनांक 03.08.1967 की अधिसूचना सं0 फा0 2/15/66-एस (सी) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जानेवाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थिएटर/ओटी/सीटीएस/न्यूरो सर्जरी/गैस्ट्रो सर्जरी/सीएसएसडी/एनेस्थीसिया/गैस प्लांट/एनेस्थीसिया वर्कशाप/आईसीयू सर्जिकल/रिससिटेशन) के पद की भर्ती (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यालयी वेबसाइट में अधिसूचना हेतु) पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (i) इन नियमों को तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थिएटर/ सीटीएस/ न्यूरो सर्जरी/गैस्ट्रो सर्जरी/सीएसएसडी/एनेस्थीसिया/गैसप्लांट/एनेस्थीसिया वर्कशाप/आईसीयू/ सर्जिकल/रिससिटेशन) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि** :—भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेख बद्ध करते हुए, तथा सरकार के परामर्श से, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
5. **बचाव** :—इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूत पूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

1.	<b>पदनाम</b>	:	तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थिएटर/ सीटीएस/ न्यूरो सर्जरी/ गैस्ट्रो सर्जरी सीएसएसडी/ एनेस्थीसिया/ गैस प्लांट/ एनेस्थीसिया वर्कशाप/ आईसीयू सर्जिकल/ रिससिटेशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यालयी वेबसाइट में अधिसूचना हेतु
2.	<b>पदों की संख्या</b>	:	58* (2024) (* परिवर्तन कार्य भार पर निर्भर)
3.	<b>वर्गीकरण</b>	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	<b>वेतन मैट्रिक्स में स्तर</b>	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5 (रुपये 29,200—92,300 /—)
5.	<b>क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद</b>	:	गैर चयन
6.	<b>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</b>	:	लागू नहीं
7.	<b>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं</b>	:	लागू नहीं
8.	<b>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं</b>	:	लागू नहीं

	आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लगू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी होतो ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	<p>पदोन्नति :-</p> <p>ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रुपये 25,500-81,100/-) के तकनीशियन (ऑपरेशन थिएटर/सीटीएस/न्यूरो सर्जरी/गैस्ट्रो सर्जरी/ सीएसएसडी/ एनेस्थीसिया/ गैसप्लांट/एनेस्थीसिया वर्कशाप/आईसीयू सर्जिकल/रिससिटेशन) में से।</p> <p>टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) —अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य</li> <li>3. उप-सचिव (गै.वि.) —सदस्य</li> </ol> <p>टीप :- यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
एस, सुनीलए, उप सचिव

## DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## NOTIFICATION

Delhi, the 13th June, 2024

**F.1 (977)/HR-Para/H&FW/2022/1412**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, GSR No. 840 Dated 13th July 1959, and in suppression of this Government's Notification No. F2/15/66-S(c) dated 03/08/1967, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant (Operation Theatre/CTS/ Neuro Surgery/Gastro-Surgery/ CSSD/ Anesthesia/ Gas Plant/Anesthesia workshop/ICU Surgical/ Resuscitation) for notification in official website of H& FW Department, GNCTD in the Department of Health and Family Welfare, namely: -

**1. Short title and commencement.** (i) These rules may be called the Technical Assistant (Operation Theatre/CTS/ Neuro Surgery/Gastro Surgery/ CSSD/ Anesthesia/ Gas Plant/Anesthesia workshop/ICU Surgical/ Resuscitation) Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, Pay Level in the Pay Matrix:** – The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

**4. Disqualifications** – No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories on persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

## SCHEDULE

(1) Name of Post.	(2) Number of Post	(3) Classification.	(4) Level in the pay matrix.	(5) Whether Selection post or non-selection post.
Technical Assistant (Operation Theatre/CTS/ Neuro Surgery/Gastro-Surgery/ CSSD/ Anesthesia/ Gas -Plant/ Anesthesia workshop/ICU/Surgical/ Resuscitation) for notification in official website of H& FW Department, GNCTD.	58 *(2024) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5(Rs-29,200-92,300/-) in the Pay Matrix	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Age limit for direct recruits.</b>	<b>Education and other qualifications required for direct recruits.</b>	<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.</b>	<b>Period of Probation, if any.</b>
Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by Deputation/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</b>	<b>In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion /Deputation / Absorption to be made.</b>	<b>If a DPC exists what is its composition.</b>	<b>Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments.</b>
100% by promotion	<b>Promotion :-</b> From amongst Technician (Operation Theatre/CTS/ Neuro-Surgery/Gastro-Surgery/ CSSD/ Anesthesia/ Gas Plant/ Anesthesia workshop/ ICU Surgical /Resuscitation) in level 4 (Rs. 25,500 -81,100/-) of the Pay Matrix with 5 years of regular service in the grade. Note: where Junior who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualification /eligibility service by more than half of such qualification /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed qualification /eligibility service.	Group 'C' Departmental promotion Committee :  1. Pr. Secretary/Secretary (PWD) - Chairperson. 2. Head of the Department Concerned - Member 3. Dy. Secretary (UD) - Member  <b>Note:</b> Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as a chairman in case the notified chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	Consultation with UPSC is not required.

By Order and in The Name of Lt. Governor  
National Capital Territory of Delhi

S. SUNIL, Dy. Secy.